



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra  
भारत सरकार का उद्यम  
एक परिवार एक बैंक

निगमित संप्रेषण व निवेशक संबंध

प्रधान कार्यालय : लोकमंगल , शिवाजी नगर, पुणे -5

टेली -020 :25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तारित. 495

## प्रेस विज्ञप्ति

### **बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा आदिवासी गांव में स्व-सहायता समूहों हेतु विशेष ऋण आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन**

**पुणे, 30 नवंबर, 2021:** बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। बैंक ने आजादी के अमृत महोत्सव के विशिष्ट आयोजन हेतु पुणे जिले की मावळ तहसील के दूरस्थ आदिवासी गांव वाडेश्वर में स्व - सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की, उन्होंने लगभग रु.3 करोड़ की राशि के मंजूरी पत्रों का वितरण किया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्व - सहायता समूहों को भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पुणे पश्चिम अंचल के अंचल प्रबंधक श्री जतीन देसाई, उप अंचल प्रबंधक श्री अमित गोयल, एलडीएम, पुणे श्री श्रीकांत कारेगांवकर और श्री सुभाष गायकवाड़, एमएसआरएलएम भी उपस्थित थे।

आउटरीच कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री विजयकुमार ने कहा कि एसएचजी ग्रामीण विकास और ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो जमीनी स्तर पर राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री विजयकुमार ने झारखंड और मध्यप्रदेश राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में अपने कार्य अनुभव को साझा किया और बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना काफी विश्वसनीय और स्वीकार्य है क्योंकि उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के अनर्जक होने की बहुत कम संभावना होती है।

श्री विजयकुमार ने कहा कि बैंक के पास समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुकूल उत्पाद और सेवाएं हैं तथा बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने और उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। एसएचजी की सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण में प्रदर्शित हो रही है जो उन्हें स्वावलंबी बनाने में सहायता करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में अनौपचारिक ऋणदाताओं के प्रभाव को कम कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक ने यह भी बताया कि बैंक उन सभी एसएचजी को समय से ऋण सुविधा प्रदान करता है जिन्होंने अपने ऋणों की समय पर चुकोती की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने समय से पुनर्भुगतान के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ तत्काल, झंझटमुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एमएसआरएलएम, एमएवीआईएम, नाबाई और जीएमबीवीएम के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।



**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**  
**Bank of Maharashtra**  
भारत सरकार का उद्यम  
**एक परिवार एक बैंक**

**निगमित संप्रेषण व निवेशक संबंध**

प्रधान कार्यालय : लोकमंगल , शिवाजी नगर, पुणे -5

टेली -020 :25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तारित. 495